



छत्तीसगढ़ शासन
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
राज्य कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेंटर
(COVID19)

website: www.cghealth.nic.in

Corona Helpline - 104

Email: idspsucg@rediffmail.com

दैनिक प्रेस विज्ञप्ति - 31 मार्च 2020 (शाम 07:00 बजे तक)

- WHO Situation Report- 70 दिनांक 30.03.2020 के अनुसार विश्व में अब तक कुल 693224 व्यक्ति संक्रमित हैं और अभी तक कुल 33106 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।
- भारत में वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण से 27 से ज्यादा राज्य प्रभावित हैं, जिनमे कुल 1397 प्रकरणों की पुष्टि हो चुकी है और कुल 35 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।
- रायपुर में आज COVID19 का एक और धनात्मक प्रकरण की पुष्टि हुई है जिसने मार्च में UK की यात्रा की है।
- राज्य के लिए यह अच्छी खबर है कि कोरोना से पीड़ित दो मरीज जिसमे एक रायपुर और दूसरा मरीज भिलाई का रहने वाला था, ईलाज के बाद पूरी तरह स्वस्थ हो गये है, जिन्हें आज एम्स से डिस्चार्ज किया गया है।
- छत्तीसगढ़ राज्य में अब तक कोरोना वायरस के कुल 787 संभावित व्यक्तियों की पहचान कर सैंपल जांच किया गया है, अभी तक 732 के परिणाम निगेटिव प्राप्त हुए हैं तथा 46 की जांच जारी है। वर्तमान में एम्स रायपुर में 05, मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में 01 और अपोलो अस्पताल बिलासपुर में 01 मरीज को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है, वही आज 02 मरीज एम्स से डिस्चार्ज हुए है।
- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आज प्रातः 11 बजे कोर कमिटी की बैठक लेकर COVID19 से बचाव हेतु तैयारियों के संबंध में समीक्षा की गई, साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक प्राप्त धनात्मक प्रकरणों में UK से आये हुए व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है, अतः UK से आये समस्त व्यक्तियों की सैंपल जांच किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। आज दिनांक तक UK से आये 95 व्यक्तियों का सेम्पल संग्रहण किया गया है, जिनमे से 04 धनात्मक मरीज पाए गये है, 47 निगेटिव एवं शेष अप्राप्त है।
- माननीय मंत्री महोदय छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण द्वारा विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित अधिकारियों से COVID19 के संक्रमण की रोकथाम की तैयारियों की जानकारी ली, उन्होंने ने अन्य राज्यों विशेषकर तेलंगाना, मुंबई, पुणे और दिल्ली से आये लोगों/श्रमिकों की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर परिक्षण कराये जाने के निर्देश दिए।
- माननीय मंत्री जी ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम की अब तक की तैयारियों के बारे में जानकारी ली और RIMS रायपुर को COVID हॉस्पिटल के रूप में शुरू कराये जाने हेतु सभी तैयारियां तेजी से पूरा करने हेतु निर्देश दिए गये। उन्होंने संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध करने के निर्देश दिए।
- माननीय मंत्री जी ने कांटेक्ट ट्रेसिंग की स्थिति की भी जानकारी ली और इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने सीजीएमएससी को गुणवत्ता वाले मास्क एवं पीपीई किट, व्हीटीएम किट की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा।
- माननीय मंत्री जी ने राज्यभर में क्वारेंटिन में रखे गये व्यक्तियों के बारे में जानकारी ली। राज्य में 71 क्वारेंटिन सेंटर है जिसमे 156 लोग रह रहे है।

राज्य के सभी निवासियों से अपील है के सामाजिक दूरी के सिद्धांत का पालन करते हुए राज्य में कोरोना वायरस के विरुद्ध लड़ाई में सरकार का सहयोग करें जिससे की राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव किया जा सके।

छत्तीसगढ़ में COVID19 की वर्तमान स्थिति

परिणाम

क्र.	जिला	अब तक कुल सैंपल	NEGATIVE	TOTAL POSITIVE CASES	TOTAL ACTIVE CASES	AWAITED	Cured / Discharge
दुर्ग संभाग							
1.	दुर्ग	73	60	0	0	12	1
2.	राजनांदगांव	31	29	1	0	1	0
3.	बालोद	8	4	0	0	4	0
4.	बेमेतरा	5	4	0	0	1	0
5.	कवर्धा	2	0	0	0	2	0
	कुल योग	119	97	1	0	20	1
रायपुर संभाग							
6.	रायपुर	415	398	6	5	12	1
7.	धमतरी	14	14	0	0	0	0
8.	बलौदाबाजार-भाटापारा	17	17	0	0	0	0
9.	महासमुंद्र	22	22	0	0	0	0
10.	गरियाबंद	3	3	0	0	0	0
	कुल योग	471	454	6	5	12	1
बिलासपुर संभाग							
11.	बिलासपुर	65	64	1	1	0	0
12.	रायगढ़	23	23	0	0	0	0
13.	कोरबा	29	17	1	1	11	0
14.	जांजगीर-चांपा	9	9	0	0	0	0
15.	मुंगेली	0	0	0	0	0	0
16.	गौरैला पेंड्रा मरवाही	0	0	0	0	0	0
	कुल योग	126	113	2	2	11	0
सरगुजा संभाग							
17.	सरगुजा	8	8	0	0	0	0
18.	कोरिया	4	4	0	0	0	0
19.	सूरजपुर	11	11	0	0	0	0
20.	बलरामपुर	6	6	0	0	0	0
21.	जशपुर	2	0	0	0	2	0
	कुल योग	31	29	0	0	2	0
बस्तर संभाग							
22.	जगदलपुर	4	4	0	0	0	0
23.	कोडागांव	13	13	0	0	0	0
24.	दंतेवाड़ा	1	1	0	0	0	0
25.	सुकमा	2	2	0	0	0	0
26.	कांकेर	2	2	0	0	0	0
27.	नारायणपुर	0	0	0	0	0	0
28.	बीजापुर	1	1	0	0	0	0
	कुल योग	23	23	0	0	0	0
29.	अन्य राज्य	17	16	0	0	1	0
	महायोग	787	732	9	7	46	2

मीडिया प्रभारी
राज्य कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेंटर
(COVID19)